



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 2008/फाल्गुन 4, 1929

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23, 2008/PHALGUNA 4, 1929

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

आ.अ. 10(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग इसके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/उत्तरा.लो.स./2001(1) और समय-समय पर यथासंशोधित नियुक्ति अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के उप-चुनाव के दौरान डाक मतपत्रों की गणना में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
02-गढ़वाल	1. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल 2. जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी

2-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेंगी।

[सं. 434/उत्तरा.-लो.स./2008(1)]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

O.N. 10(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoints, in addition to the officers appointed by its Notification No. 434/UCL-HP/2001(1), dated 13th August, 2003, as amended from time to time, the officer of the Government of Uttarakhand as specified in column (2) of the table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Uttarakhand as specified in column (1) of the said table against such officer of the State Government in counting of postal ballots papers during the ensuing Bye-election to the Lok Sabha, 2008 in the Uttarakhand State :—

TABLE

S.No. & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
02-Garhwal	1. Chief Development Officer, Pauri Garhwal 2. District Panchayatraj Officer, Pauri

The appointment of the above officer as Assistant Returning Officer in 02-Garhwal Parliamentary Constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency.

[No. 434/UKH-HP/2008(1)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.